



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 196]
No. 196]नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 1, 2002/श्रावण 10, 1924
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 1, 2002/SRAVANA 10, 1924

संसदीय कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2002

फा. सं. 2(1)/97-अनु. और सम्मेल. —अगस्त, 1997 में श्रीनगर में हुए बारहवें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसरण में, इस मंत्रालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7 अप्रैल, 2000 (भारत के राजपत्र, भाग-I, खण्ड-1—संख्या 79 दिनांक 8 अप्रैल, 2000 में प्रकाशित) द्वारा बारहवें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन के पूर्ण सत्र में व्यक्त किए गए विचारों और उस द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए एक मानीटरिंग दल का गठन किया गया था। उपर्युक्त अधिसूचना के पैरा 1 के द्वारा यह शर्त लगाई थी कि मानीटरिंग दल अपने प्रतिवेदन को दल की पहली बैठक की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अन्दर अन्तिम रूप दे देगा।

2. मानीटरिंग दल की पहली बैठक दिनांक 17-5-2000 को हुई थी। मानीटरिंग दल का कार्यकाल एक वर्ष के लिए दिनांक 17-5-2001 से 16-5-2002 तक बढ़ा दिया गया था और इसे बाद में फिर दिनांक 17-5-2002 से 16-8-2002 तक तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। अतः मानीटरिंग दल को 16 अगस्त, 2002 को अथवा उससे पहले अपने प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दे देना है।

3. चूंकि अपने प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देने के लिए मानीटरिंग दल को कुछ और समय लगेगा, अतः मानीटरिंग दल का कार्यकाल दिनांक 17 अगस्त, 2002 से छः महीने की अवधि के लिए आगे बढ़ाया जाता है।

देवराज तिवारी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August, 2002

F. No. 2(1)/97-R&C.—Pursuant to the recommendations made by the Twelfth All India Whips' Conference held at Srinagar in August, 1997, a Monitoring Group was constituted vide this Ministry's notification of even number dated 7th April, 2000 (published in the Gazette of India, Part I, Section 1—No. 79 dated 8th April, 2000) to watch the progress of implementation of the recommendations made by the Twelfth All India Whips' Conference and the views expressed in its plenary session. It was stipulated vide para 1 of the above mentioned notification that the Monitoring Group will finalise its Report within a period of one year from the date of its first sitting.

2426 GI-2002

(1)

2. The first meeting of the Monitoring Group was held on 17-5-2000. The term for the Monitoring Group was extended by one year w.e.f. 17-5-2001 to 16-5-2002 and which was further extended by three months w.e.f. 17-5-2002 to 16-8-2002. Therefore, the Monitoring Group was to finalise its report on or before 16th August, 2002.

3. As the Monitoring Group is likely to take more time to finalise its report, the term of the Monitoring Group is hereby extended by a further period of six months with effect from 17-8-2002.

D. R. TIWARI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2002

विषय :— बारहवें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए मानीटरिंग ग्रुप का गठन।

फा.सं. 2(1)/97-अनु. और सम्मेल.—श्री एस.एस. आहलुवालिया, सदस्य, राज्य सभा और राज्य सभा में भा.ज.पा. के मुख्य सचेतक को इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 2(1)/97-अनु. और सम्मेल. दिनांक 7 अप्रैल, 2000 द्वारा अधिसूचित बारहवें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन की सिफारिशों के कार्यान्वयन की जाँच करने के लिए गठित मानीटरिंग ग्रुप के एक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।

देवराज तिवारी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August, 2002

Subject :— Constitution of a Monitoring Group for implementation of the recommendations of the Twelfth All India Whips Conference.

F.No. 2(1)/97-R&C.—Shri S. S. Ahluwalia, Member of Rajya Sabha and Chief Whip of BJP in Rajya Sabha has been appointed as a member of Monitoring Group constituted to watch the implementation of the recommendations of the Twelfth All India Whips Conference notified vide this Ministry's Notification No. 2(1)/97-R&C dated 7th April, 2000.

D. R. TIWARI, Jt. Secy.